



# अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : [abvpkendra@gmail.com](mailto:abvpkendra@gmail.com)

दिनांक: 27 मई 2021

**-: प्रेस विज्ञप्ति :-**

**वायरल हो रहे सामूहिक दुष्कर्म के वीडियो के दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाए: अभाविप**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोषियों की जल्द से जल्द पहचान करने तथा त्वरित कार्यवाही करने की मांग करती है।

सोशल मीडिया पर एक लड़की के सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की के साथ कुछ लोग बुरी तरह इस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना की पूरी जानकारी अभी भी सरकार और पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री कुमारी विनीता इंदवार ने कहा की, “वाइरल वीडियो ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है। इस घटना को अंजाम देने, उनकी मदद करने और वीडियो को वाइरल करने में लिप्त सभी को कठोर सजा मिलनी चाहिये।”

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक दोषियों की पहचान नहीं हो पाई है, अभाविप सरकार से मांग करती है कि दोषियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और इस कृत्य के लिये कठोर से कठोर सजा दी जाए। आम जनमानस से भी अनुरोध है कि जिस किसी को भी इस घटना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त हो वह असम पुलिस को उपलब्ध करवाये जिससे दोषियों पर कार्यवाही हो सके।

---

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)